

बिल्डिंग परमिट संबंधी शर्तें

बेसमेंट फिनिश

बिल्डिंग परमिट आवेदन

प्रस्तुति के समय निम्नलिखित जानकारी आवश्यक है। अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकते।

1. पूरे किए बिल्डिंग परमिट आवेदन में निम्नलिखित शामिल होता है:

- आवेदन फॉर्म "निर्माण करने या गिराने के लिए परमिट"
- शेड्यूल 1: डिजाइनर जानकारी
- लागू कानूनी जांच सूची
- शेड्यूल "A" – बेसमेंट फिनिश घोषणा

2. वास्तविक योजनाओं के दो सेट, जिसमें निम्नलिखित शामिल होना आवश्यक है:

- योजना का शीर्षक और माप (जैसे 1/4" = 1')
- संपूर्ण परिमाण और प्रत्येक कमरे और खाली स्थान के परिमाण
- प्रत्येक कमरे और खाली स्थान का उपयोग
- मौजूदा और प्रस्तावित खिड़कियों का स्थान और आकार
- मैटिरियल, आकार और खाली स्थान (दीवारें, दरवाजे और भीतरी छतें) सहित प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्माण के विवरण
- प्लम्बिंग फिक्सचर्स का स्थान; फिक्सचर मौजूदा हैं या नए
- धुएं के अलार्म(अलार्मों) का स्थान
- मौजूदा सप्लाइ एयर रजिस्टर्स और रिटर्न एयर ग्रिल्स और नई सप्लाइ एयर रजिस्टर्स और रिटर्न एयर ग्रिल्स का स्थान दिखाएं
- गुसलखाने के लिए एग्जॉस्ट पंखे का स्थान दिखाएं, यदि गुसलखाने में खुलने योग्य खिड़की नहीं दी गई है
- फिक्सचर वाली कम से कम एक लाइटिंग को नियंत्रित करने के लिए सीढ़ियों के ऊपर और निचले हिस्से पर स्थित थ्री वे वॉल स्विच प्रदान किया जाना और योजना में नियत किया जाना आवश्यक है; बताएं कि स्विच नया है या मौजूदा

ध्यान दें:	न्यूनतम आवश्यक खिड़की वाला क्षेत्र		
	लिविंग और डाइनिंग रूम	बेडरूम	
5 वर्ष या इससे अधिक समय पुराना घर	कमरे के क्षेत्र का 10%	कमरे के क्षेत्र का 5%	
5 वर्ष या इससे अधिक समय पुराना घर	कमरे के क्षेत्र का 5%	कमरे के क्षेत्र का 2.5%	

** बेसमेंट रेक्रीएशन कमरे में खिड़की आवश्यक नहीं है।

3. हमारी स्टैंडर्ड 10 दिन की परमिट आवेदन सर्विस पर \$280.50 की परमिट फीस लागू होती है

ध्यान दें: नई खिड़कियों या अधिक ग्रेड के बाहरी दरवाजों की वृद्धि के लिए प्रत्येक के लिए \$114.89 जोड़ें

बिल्डिंग परमिट जारी करना

1. जहां रजिस्टर्ड कोंडोमिनियम के सामान्य भाग के अंदर निर्माण के लिए परमिट जारी किया जाता है, वहां कोंडोमिनियम कार्पोरेशन के अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किया गया, बिल्डिंग या प्रॉपर्टी के सामान्य भाग के अंदर किए जाने वाले काम की अनुमति के लिए निर्माण के लिए अनुमति का नोटिस (Notice of Permission to Construct) फार्म प्रस्तुत किया जाएगा।

परमिट
टेली. 905-874-2401
फैक्स 905-874-2499

जांचें
टेली. 905-874-3700
फैक्स 905-874-3763

ज़ोनिंग सर्विसिज
टेली. 905-874-2090
फैक्स 905-874-2499